

Delton Cables Limited

Regd office : 'Delton House, 4801, Bharat Ram Road 24, Darya Ganj, New Delhi - 110002 (INDIA)

Phone : 91-11-23273907

E-mail : dcl@deltoncables.com, Website : www.deltoncables.com

CIN : L31300DL 1964PL C004255

AN ISO 9001-2008 COMPANY

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: September 03, 2024

BSE Scrip Code: 504240

Sub: Intimation regarding Newspaper publication of 59th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting

Dear Sir,

Pursuant to the relevant regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we would like to inform the following:

1. The Share Transfer Books and the Register of Members of the Company will remain closed from Wednesday, September 18, 2024 to Wednesday, September 25, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 59th Annual General Meeting of the Company which is scheduled to be held on Wednesday, September 25, 2024 at 10:30 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in accordance with the applicable Circulars of Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India.
2. The cut –off date for the purpose of determining members for providing remote e-voting and e-voting facility to the members is Wednesday, September 18, 2024.
3. The remote e-voting period shall commence from Saturday, September 21, 2024 (10:00 a.m. IST) and ends on Tuesday, September 24, 2024 (5:00 p.m. IST).
4. The Company has recommended a dividend of Rs. 1.50/- per equity share of Rs.10 each for Financial Year ended March 31, 2024.

A copy of the newspaper advertisement of the above information is also enclosed for your records and reference. You are therefore requested to kindly take the same on your record in compliance of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Delton Cables Limited

Vivek Gupta
Managing Director
DIN: 00035916

Encl: as above

Netflix is trying to get you hooked on reality TV with better dubbing

Using South Korea as a testing ground, the streamer offers culture classes to voice actors to nail the nuances of translation

Jiyoung Sohn
feedback@livemint.com
SEOUL

A push by Netflix to keep its subscribers hooked involves 90-minute cram sessions on South Korean culture and expressions to ensure better-quality dubbing and translations. *Dae-bak* expresses a pleasant surprise. *Aish* means disappointment. The students are hundreds of voice actors and staff in the U.S., Europe and elsewhere tasked with dubbing South Korean content for a global audience, while maintaining its roots and authenticity. The teachers are Netflix officials trying to educate performers on the perfect mix of authentic Korean nuance and accessible translations.

The streaming giant is trying to help unscripted reality TV—a genre that often proves difficult to export—and other non-English content find global appeal. As it faces increased competition in streaming, Netflix aims to help shows that are popular in one market—such as South Korean dating shows, physical competitions and game shows—take off internationally.

Streaming giants have leaned toward more productions of unscripted shows, which can be cost-effective compared with big-scale TV originals. Five years ago, about 70% of content from major streamers was scripted. Today

unscripted shows are nearing an equal split, according to Ampere Analysis, a London-based research firm. Typically, an unscripted show will cost one-fifth of a higher-budget drama, on a per-hour basis, Ampere said.

Streaming platforms, as they have grown more cost-conscious, are spending less on splashy originals designed to lure new subscribers, said Richard Broughton, Ampere's executive director. "They're focused more on customer retention now, and that can often be delivered through cheaper content," he said.

Netflix supports more than 30 languages, with non-English content representing nearly one-third of all viewing on the service. And films and shows from South Korea, with hits such as *Squid Game*, Netflix's most-viewed show

THE WALL STREET JOURNAL

ever, represent the biggest slice of that pie.

Infusing just enough Korean know-how into English-language voice-overs, for instance, helps avoid a South Korean show coming across as too American, which could feel forced or awkward, the company says.

The dubbing playbook proved successful for Netflix with the South Korean show *Physical: 100*, where a hundred fit contestants vie to be the last one standing after a series of physical challenges. Last year it became the first non-English unscripted show to top Netflix's global top-10 list, doing



The streaming giant is trying to help unscripted reality TV and other non-English content find global appeal.

so in more than 80 countries including the U.S., France and Brazil. A second season, dubbed in 16 languages, reaped that achievement.

Other unscripted shows from South Korea have gone big globally, including *Single's Inferno*, a dating program, and *The Devil's Plan*, a strategy game show. In recent weeks, *The Influencer*, a competition for online attention between social-media stars, made it into the top-10 non-English TV shows list.

For *Physical: 100*, Austin Kuniyoshi, a Los Angeles-based actor, dubbed a bravely former South

Korean firefighter who appeared in both seasons. Kuniyoshi studied the contestant's physicality and his relationship with his body to better replicate his persona and presence on the show.

Kuniyoshi's voice wasn't naturally deep enough to mimic the contestant's pitch. But Kuniyoshi drew from his knowledge of Korean and what he learned from watching K-dramas in the past to focus most on natural delivery.

"Like a Johnny Bravo kind of vibe," said Kuniyoshi. "But maybe more toned down. Less exaggerated, but still deep and self-confident."

The actor, who has Filipino and Japanese heritage, also drew on his personal experiences as an Asian-American to better convey the social cues and meaning behind honorific words that don't exist in English. That includes terms like *hyeong*, the literal Korean word for "older brother" that is also often used when addressing an older male friend.

"Those things have a different level of respect that sometimes we don't commonly see in America or understand," Kuniyoshi said.

These nuances are at the center of the South Korean culture classes that Netflix offers to dubbing studios worldwide. The workshop introduces the Korean alphabet and emphasizes correct pronunciation of Korean names. A popular insight among attendees: a detailed explainer on understanding the different variations of the Korean word for "yes," or *ne*, with a matching emoji to represent the tone that is being conveyed.

Dubbing should be like a magic trick for viewers, said John DeMita, who heads Netflix's English-language dubbing production. "We want them to relax and enjoy the show without effort," he said. "You want us to disappear."

Netflix's efforts toward quality dubbing also extend to its original scripted and non-scripted content, including titles from Japan, India,

France and Brazil.

More than 40% of all viewings for South Korean unscripted shows are watched with dubbing, illustrating its appeal to viewers, DeMita said.

Reality TV shows that become mega cross-border hits are rare, owing to cultural differences, varying humor styles and the need to catch region-specific references. Typically, a popular unscripted show taken elsewhere involves localized spinoffs, such as Amazon Prime's *Last One Laughing*, which has more than a dozen different incarnations from Ireland to Indonesia.

Streamers have leaned toward unscripted shows, which can be cost-effective compared with TV originals

Unlike prestige dramas that may become comfort viewing or a binged rewatch ahead of a new season, unscripted content tends to have a far shorter shelf life, according to Ampere.

"It's a reality TV competition show: You know who won," said Ampere's Broughton. "The fun is not knowing what's going to happen."

More human-centric approach to dubbing mostly pleased Hong Beom-seok, the beefy *Physical: 100* contestant voiced by Kuniyoshi. It was cool to see himself speak English on-screen, he said, a sentiment shared by many of his fellow contestants. He noticed the higher-pitched voice and found it awkward.

"I think my own voice probably suits me best," Hong said.

©2024 DOW JONES & CO. INC.

Total to set up new solar JV with Adani

Bloomberg
feedback@livemint.com

TotalEnergies SE will invest about \$444 million in a new joint venture with Adani Green Energy Ltd. to develop solar projects in India, expanding cooperation between the energy giant and billionaire Gautam Adani's conglomerate.

TotalEnergies will hold 50% stake in the new entity, which will comprise solar farms in operation and under construction, according to an exchange filing Monday. Adani Green, which is 19.75% owned by Total, will own the other half of the venture.

The planned deal will increase the French company's presence in India's fast-growing energy market, while allowing Adani Green to develop new renewable projects. The latter company is building the world's largest renewables park, a 30-gigawatt project, in the Khavda region of Gujarat state, in the western part of the country.

The new joint venture will house a 1,150-megawatt portfolio of solar projects. The transaction details are under discussion and subject to customary approvals and conditions, Adani's filings said.

Last year, TotalEnergies invested \$300 million in a joint venture with Adani Green that's developing wind and solar assets in India. The French company agreed to buy a stake in Adani Green and an interest in solar assets for \$2.5 billion in 2021.

BSES Yamuna Power Limited, Delhi
... A Joint venture with Govt. of NCT of Delhi

NOTICE INVITING TENDER Date: 03.09.2024

E-tenders under two Bid System (Unpriced & Priced) are invited as per the following details:

NIT No.	Tender Description	Estimated Cost (₹)	Cost of EMD (₹)	Due Date & Time of Submission	Date & Time of Opening
CMC/BY/24-25/RS/SK/S/33	Supply, Installation, Commissioning and Testing of IP Surveillance System	2.00 Crore	4.00 Lakhs	24.09.2024 15:00 Hrs	24.09.2024 15:30 Hrs
CMC/BY/24-25/RS/SK/S/APT/34	Supply, installation, commissioning and testing of servers, network switch and storage expansion	2.95 Crore	5.90 Lakhs	24.09.2024 15:00 Hrs	24.09.2024 16:00 Hrs
CMC/BY/24-25/RS/SK/S/APT/35	Supply and Services for Telecom System up-gradation	1.12 Crore	2.24 Lakhs	24.09.2024 15:00 Hrs	24.09.2024 16:30 Hrs
CMC/BY/24-25/RS/SK/S/APT/36	Supply and Services for Servers for Web portal and PII/PO	2.09 Crore	4.18 Lakhs	24.09.2024 15:00 Hrs	24.09.2024 17:00 Hrs

Cost of each Tender Document: ₹1,100/-
For details in respect of Equipment/BOM/Services, Qualifying requirements, Terms & conditions, purchase/submission of tender documents, corrigendum etc. please visit our website www.bsesdelhi.com --> BSES YAMUNA POWER LTD.--> Tenders--> Open Tenders.

Regd Off: BSES Yamuna Power Ltd, Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi-110032 | CIN: U40109DL2001PLC111525
Website: www.bsesdelhi.com

हिन्दुस्तान
Hindustan Media Ventures Limited

Registered Office: Budh Marg, Patna - 800001
Ph.: 0612 222 3434;

Corporate Office: 5th Floor, Lotus Tower, A-Block, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi-110025
Ph.: 011 6656 1234; E-mail: hrmfinvestor@livehindustan.com;
Website: www.hmv.in
CIN: L21090BR1918PLC000013

NOTICE OF 14th ANNUAL GENERAL MEETING (POST- IPO) OF HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED

In furtherance to our Notice published in the newspapers viz. *Mint (All editions)* and *Hindustan (Bihar and Delhi NCR edition)* on August 26, 2024 regarding the 14th Annual General Meeting (Post- IPO) ('AGM') of **Hindustan Media Ventures Limited ('Company')** to be held on **Thursday, September 26, 2024 at 11:00 AM (IST)** through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), the Members of Company are hereby informed that the Notice convening the AGM, procedure & instructions for e-voting (remote e-voting and e-voting at the AGM) and the Annual Report for FY-24 have been sent on September 2, 2024 to those Members whose e-mail id's are registered with the Company/Depository Participants ('DP')/Registrar and share Transfer Agent ('RTA').

Members may download the Notice of AGM, Annual Report for FY-24 and other relevant documents from the website of the Company viz. www.hmv.in; stock exchanges where shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com; National Stock Exchange of India Limited viz. www.nseindia.com and National Securities Depository Limited ('NSDL') viz. www.evoting.nsdl.com. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

The detailed procedure for attending AGM, e-voting (remote e-voting and e-voting at the AGM) etc. is set forth in the Notice of AGM, on the following lines:

- The Company is providing facility to its Members to exercise their right to vote on the business set forth in the Notice of AGM through remote e-voting and e-voting at the AGM. Procedure for e-voting and attending the AGM for Members are provided in Notice of AGM. NSDL has been engaged by the Company for providing VC/OAVM platform and e-voting facility.
- The remote e-voting facility will be available during the following period:
Commencement of remote e-voting From 9.00 A.M. (Server time) on September 21, 2024 (Saturday) to 5.00 P.M. (Server time) on September 25, 2024 (Wednesday)
End of remote e-voting Up to 5.00 P.M. (Server time) on September 25, 2024 (Wednesday)

The remote e-voting facility will be forthwith disabled by NSDL and Members will not be allowed to vote through remote e-voting, beyond the said date and time.

- Members of the Company whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. **Thursday, September 19, 2024** only, are entitled for e-voting and to attend the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently. Voting rights of the Members shall be in proportion to their holding in the paid-up share capital of the Company as on the Cut-off date.
- Members who have exercised their right to vote through remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again thereat.
- In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on or before the Cut-off date i.e. **Thursday, September 19, 2024**, or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the User ID and Password in the manner outlined in the Notice of AGM.
- Manner of registering/updating KYC details including email address:**

- Members holding shares in physical form and who have not registered/updated their KYC details including e-mail id with the Company or RTA, may register/update such details by downloading the relevant forms from the said link <https://ns.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx> and sending the same physically along with the request letter duly filled with the details therein and attaching such documents as required in the forms to KFin Technologies Limited, Unit: **Hindustan Media Ventures Limited**, Ramky Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India-500032.
- Members holding shares in dematerialised mode and have not registered/updated their e-mail address, can register/update their e-mail address with the DP where they maintain their demat accounts.

- The result will be declared by the Chairman or any other person authorized by him on or before **Saturday, September 28, 2024**. The result along with the Scrutinizer's report will be hosted on the Company's website viz. www.hmv.in and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com. The result shall also be intimated to the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited, NSDL and Central Depository Services (India) Limited. The Company will also display the result at its Registered Office and Corporate Office.
- In case of any query regarding e-voting facility, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Download section at www.evoting.nsdl.com or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager (NSDL) at evoting@nsdl.com or can write at NSDL, 301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No. C-32, Bandra Kuria Complex, Bandra East, Mumbai-400051 or call at 022-48867000.

For Hindustan Media Ventures Limited
Sd/-
Nikhil Sethi
(Company Secretary)

Date: September 2, 2024
Place: New Delhi

Delton Cables Limited
CIN: L31300DL1964PLC02455

Regd. Office : Delton House, 48B1, Bharat Ram Road, 24, Darya Gani, New Delhi -110002
Website : www.deltoncables.com, E-mail: cs@deltoncables.com, Tel: 0129-4523000

NOTICE OF 59th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

- Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting ('AGM') of Delton Cables Limited (the 'Company') is scheduled to be held on Wednesday, September 25, 2024 at 10:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with all subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (MCA Circulars) and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI/Circulars') has allowed the Company to conduct the AGM through VC or OAVM upto September 30, 2024. In accordance with the said circulars of MCA, SEBI and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 have already been emailed to all the shareholders whose email addresses were registered with the Depository Participants/RTA/Company. The e-mailing of all notices along with the Annual Report has been completed on Monday, September 02, 2024.
- Book Closure:** Pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the Company shall remain closed on Wednesday, September 18, 2024 to Wednesday, September 25, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the Dividend and AGM.
- Dividend:** The Board has recommended a dividend of Rs. 1.50/- per equity share of face value of Rs. 10/- each for the financial year ended March 31, 2024. The dividend, if approved at the Annual General Meeting, would be paid subject to deduction of tax at source, as may be applicable, to those persons or their mandates:
 - Whose names appear as Beneficial Owners as at the end of the business hours on Wednesday, September 18, 2024 (Record date) in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of the shares held in the electronic form; and
 - Whose names appear as Members in the Register of Members of the Company as at the end of the business hours on Wednesday, September 18, 2024 after giving effect to valid request(s) received for transmission/transposition of shares.

Tax on Dividend: Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct the TDS from the dividend paid to the members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). To enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and/or update their residential status, Permanent Account Number ('PAN') and Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form with the Company by submitting the required documents at cs@deltoncables.com or secretariat@deltoncables.com on or before **September 18, 2024**, to enable the Company to determine the appropriate TDS/withholding Tax rate applicable, verify the documents and provide exemption, if any.

- E-voting Information:** In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the resolutions mentioned in the AGM Notice using the electronic voting platform provided by CDSL. The facility of electronic voting shall also be made available during the meeting on the day of AGM for those members who have not cast their vote by remote e-voting and participating in AGM through VC/OAVM shall be able to exercise their right in the meeting. The Board has appointed Ms. Vaibhav Sharma and Associates, Practising Company Secretaries, as scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner. The members may note the following:
 - The Ordinary and Special Businesses as set out in the AGM Notice may be transacted through voting by electronic means.
 - Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 18, 2024 may cast their vote electronically on the businesses set out in notice through such remote e-voting.
 - Any person, who acquires shares and become a member of the Company after sending the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 18, 2024 may obtain the login id and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning the his/her Folio Number/ DP ID and Client ID Number. However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
 - The remote e-voting period commences on Saturday, August 21, 2024 at 10:00 am and ends on Tuesday, September 24, 2024 at 05:00 pm. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
 - The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
 - The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the member participating in AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the meeting.
 - The member who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
 - Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting.
 - Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM are provided in the AGM Notice.
 - Members may note that the notice of the 59th Annual General Meeting and the Annual Report for FY 2023-24 are also available on the Company's website (www.deltoncables.com), website of CDSL (www.evotingindia.co.in) as well as on the website of BSE Ltd.
 - In case of any queries/grievances connected with e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the www.evotingindia.com, under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Marfatil Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 225 55 33.

For Delton Cables Limited
Sd/-
Vikas Rawat
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place : Delhi
Date : September 02, 2024

Have fun with facts on Sundays

Catch the latest column of

THE WEEK THAT WAS

A quiz on the week's development.

FIRST VOICE. LAST WORD.

www.hindustantimes.com

HT TWTW

THE WEEK THAT WAS

A quiz on the week's development.

www.hindustantimes.com

For Hindustan Media Ventures Limited
Sd/-
Nikhil Sethi
(Company Secretary)

Date: September 2, 2024
Place: New Delhi

